

पत्रांक- 1739 / वि० प्रे० मं० द्वि० प० (का०) / टी०-1

दिनांक- 18-07-2022

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित ई-निविदा जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ई-निविदा की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड कर दी गई है:-

ई-निविदा संख्या- T-24/ETC-II(K)/2022-23, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, कानपुर के अन्तर्गत 220के०वी० विद्युत उपकेन्द्र साढ़ कानपुर पर स्थापित मल्सीफायर सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क (जी०एस०टी० सहित) रू० 590/- (रू० पाँच सौ नब्बे मात्र)। धरोहर राशि रू० 3400/- (रू० तीन हजार चार सौ मात्र)।

ई-निविदा संख्या- T-25/ETC-II(K)/2022-23, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, कानपुर के अन्तर्गत 220के०वी० विद्युत उपकेन्द्र नौबस्ता-कानपुर पर स्थापित मल्सीफायर सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क (जी०एस०टी० सहित) रू० 590/- (रू० पाँच सौ नब्बे मात्र)। धरोहर राशि रू० 3500/- (रू० तीन हजार पाँच सौ मात्र)।

ई-निविदा संख्या- T-26/ETC-II(K)/2022-23, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, कानपुर के अन्तर्गत 220के०वी० विद्युत उपकेन्द्र कानपुर साउथ पर स्थापित मल्सीफायर सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क (जी०एस०टी० सहित) रू० 590/- (रू० पाँच सौ नब्बे मात्र)। धरोहर राशि रू० 3600/- (रू० तीन हजार छः सौ मात्र)।

ई-निविदा संख्या- T-27/ETC-II(K)/2022-23, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, कानपुर के अन्तर्गत 220के०वी० विद्युत उपकेन्द्र नौबस्ता पर स्थापित 160एमवीए एवं 63एमवीए ट्रान्सफार्मर के खराब कूलिंग फैन की मरम्मत का कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क (जी०एस०टी० सहित) रू० 590/- (रू० पाँच सौ नब्बे मात्र)। धरोहर राशि रू० 1800/- (रू० एक हजार आठ सौ मात्र)।

ई-निविदा संख्या- T-28/ETC-II(K)/2022-23, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, कानपुर के अन्तर्गत 220के०वी० विद्युत उपकेन्द्र नौबस्ता पर स्थापित संयन्त्रों की आग से सुरक्षा हेतु रखे हुए अग्निशमन संयन्त्रों की रिफिलिंग का कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क (जी०एस०टी० सहित) रू० 590/- (रू० पाँच सौ नब्बे मात्र)। धरोहर राशि रू० 1200/- (रू० एक हजार दो सौ मात्र)।

उपरोक्त विषय में विस्तृत विवरण साईट पर उपलब्ध हैं सभी सक्षम आपूर्ति/कार्यदायी संस्थाएं तदनुसार निविदा में भाग ले सकती हैं।

Published on dated
19.07.2022

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, कानपुर
विद्युत प्रपत्र, मन्दाय विभाग
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
कानपुर

“ राष्ट्र हित में बिजली बचायें ”

